

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 403]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 अगस्त 2010—श्रावण 11, शक 1932

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2010

क्र. 65-04-2010-तीन-2365.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अनुसरण में, एतद्वारा, नगर पंचायत, धुवारा, जिला छतरपुर के माह जुलाई, 2010 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, धुवारा, जिला-छतरपुर.	अध्यक्ष	—	—	कलार सुरेन्द्र (पप्पू राय)
		पार्षद	1	एक	अनंत सिंह
		पार्षद	2	दो	ढीमर हरदास तनय भुज्जा
		पार्षद	3	तीन	खटीक मनोज
		पार्षद	4	चार	घोषी मंजू रानी
		पार्षद	5	पांच	गनेश प्रसाद पटवा
		पार्षद	6	छः	हजारी सेन उर्फ लाले
		पार्षद	7	सात	मनोज मस्ताई
		पार्षद	8	आठ	तुलसा पति बिन्दावन साहू
		पार्षद	9	नौ	कमला पति/धनीराम
		पार्षद	10	दस	कुसुम/जगन कुशवाहा
		पार्षद	11	ग्यारह	असाटी सीमा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	12	बारह	अहिरवार दलसींगा
		पार्षद	13	तेरह	भूरी
		पार्षद	14	चौदह	अहिरवार पानाबाई
		पार्षद	15	पन्द्रह	देशरानी लोधी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( ए. के. शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2010

क्र. 65-04-2010-तीन-2366.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अनुसरण में, एतद्वारा, नगर पंचायत, चाकघाट, जिला रीवा के माह जुलाई, 2010 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, चाकघाट, जिला-रीवा.	अध्यक्ष	—	—	अलखनारायण केशरवानी
		पार्षद	1	एक	ज्ञानेश सिंह पटेल
		पार्षद	2	दो	अम्बिका प्रसाद सोनी
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती अनीता जायसवाल
		पार्षद	4	चार	उर्मिला देवी केशरवानी
		पार्षद	5	पांच	अजय कुमार उर्फ बच्चा
		पार्षद	6	छः	अनीता केशरवानी
		पार्षद	7	सात	श्रीमती मीनू ताम्रकार
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती सुधा केशरवानी
		पार्षद	9	नौ	नन्द किशोर (नन्दू)
		पार्षद	10	दस	उर्मिला केशरवानी
		पार्षद	11	ग्यारह	बिनोदनी केशरवानी
		पार्षद	12	बारह	छोटेलाल आदिवासी
		पार्षद	13	तेरह	जगदम्बा प्रसाद गुप्ता
		पार्षद	14	चौदह	देवेन्द्र सिंह (राजा)
		पार्षद	15	पन्द्रह	पन्नालाल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( ए. के. शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2010

क्र. 65-04-2010-तीन-2367.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अनुसरण में, एतद्वारा, नगर पंचायत, कोटर, जिला सतना के माह जुलाई, 2010 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, कोटर, जिला-सतना.	अध्यक्ष	—	—	रामनारायण शुक्ल (पप्पू)
		पार्षद	1	एक	सान्ती-सीतल सोनी
		पार्षद	2	दो	रामनरेश-गुलाब कोल
		पार्षद	3	तीन	नवलकिशोर गंगाप्रसाद बढई
		पार्षद	4	चार	ऊषा जगदीश कोरी
		पार्षद	5	पांच	रामशरण सिंह सिंगरौल
		पार्षद	6	छः	करूणा सिंह रामायण सिंह
		पार्षद	7	सात	सुशीला-मूलचन्द्र चौधरी
		पार्षद	8	आठ	राकेश कुमार विश्वकर्मा
		पार्षद	9	नौ	अन्जू देवी
		पार्षद	10	दस	कलावती रामनिवास उर्मलिया
		पार्षद	11	ग्यारह	सुरेश पयासी (दादू)
		पार्षद	12	बारह	पंकज कुशवाहा (पिन्टू)
		पार्षद	13	तेरह	आशा देवी शंकरदास यादव
		पार्षद	14	चौदह	कमलेश प्रसाद साकेत
		पार्षद	15	पन्द्रह	कमला जयकरण सिंह

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( ए. के. शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

